



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 1978/पौष 15, 1899

No. 4]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 1978/PAUSA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1978

सार्वजनिक सूचना सं. 1-आईटीसी/पीएन/78.—1977-78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा. 11) के खंड 4 में यथा की गई सुस्थापित आयातकों द्वारा विभिन्न सामान के आयात के लिए नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. भरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत किस्म के बाल, रोलर एवं नीडल रोलर बेंयरिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि इन मदों के आयात के लिए सुस्थापित आयातकों को क्वोटा लाइसेंस निम्नलिखित आधार पर प्रदान किए जाएंगे :

1. लाइसेंस 50 प्रतिशत क्वोटा के लिए प्रदान किए जाएंगे।
2. पुरानी आयात व्यापार नियंत्रण की क्रम सं. 19/11 की विभिन्न उप-क्रम संख्याओं के लिए संबंध सुस्थापित आयातकों द्वारा प्राप्त किए गए क्वोटा प्रमाण-पत्र के संयुक्त मूल्य के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे चाहे ऐसे क्वोटा प्रमाण-पत्र उसी आधार वर्ष के हों या न हों।
3. उपर्युक्त (2) में यथा गणना किया गया संयुक्त मूल्य न्यूनतम मूल्य के लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजन के लिए भी लिया जाएगा।
4. क्वोटा लाइसेंस 1977-78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा. 1) के परिशिष्ट-14 में निषेध को छोड़ कर

बाल, रोलर एवं नीडल रोलर बेंयरिंग के आयात के लिए बंध होंगे। लेकिन, उक्त परिशिष्ट-14 में उल्लिखित प्रतिबंधित किस्म के आयात की स्वीकृति क्वोटा लाइसेंसों के मूल्य के केवल 20 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी।

5. इन मदों के लिए क्वोटा के निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. बाल, रोलर और नीडल, रोलर बेंयरिंग के वं सुस्थापित आयातक जो इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार क्वोटा लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि वे 21 जनवरी, 1978 को या इससे पूर्व निर्धारित प्रपत्र एवं विधि से संबंध संश्लेष लाइसेंस प्राधिकारियों को आवेदन करें।

[मि. सं. आईपीसी/55/आईएमजीपी/वांथी मीटिंग/77-78]

क. वं. शोषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

New Delhi, the 5th January, 1978

Public Notice No. 1-ITC(PN)/78.--Attention is invited to the policy for import of various goods through the established importers as given in Section IV of the ITC Policy (Volume I) for 1977-78.

2. In order to meet the requirements of permissible types of ball, roller and needle roller bearings, for servicing purposes, it has been decided to grant quota licences

for import of these items in favour of Established Importers, on the following basis :—

- (i) Licences will be granted on a quota of 50 per cent.
- (ii) Licences will be granted on the combined value of the quota certificates held by the concerned Established Importers for different sub-serial numbers of the old ITC S. No. 19/11, even if such quota certificates may or may not be of the same basic year ;
- (iii) The same combined value as worked out in (ii) above will also count for the purpose of the grant of minimum value licences ;
- (iv) Quota licences will be valid for import of ball, roller and needle roller bearings, excluding those

banned in Appendix 14 of the ITC Policy (Volume I) for 1977-78. However, the import of the restricted types mentioned in the said Appendix 14, will be allowed only upto 20 per cent of the value of quota licences.

- (v) No requests for fixation/re-fixation of the quota for these items will be entertained.

3. Established Importers of ball, roller and needle roller bearings desirous of obtaining quota licences, in terms of this public notice, should apply to the regional licensing authorities concerned, in the prescribed form and manner on or before the 31st January, 1978.

[F No. IPC/55/IMGP/4th Meeting/77-78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.